

नामांक

Roll No.

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

No. of Questions – 30

No. of Printed Pages – 8

# SS-85-Philosophy (Supp.)

**दर्शनशास्त्र (PHILOSOPHY)**

**उच्च माध्यमिक पूरक परीक्षा, 2020**

**समय : 3 $\frac{1}{4}$  घण्टे**

**पूर्णांक : 80**

**परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश :**

## **GENERAL INSTRUCTIONS TO THE EXAMINEES :**

- (1) परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न-पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें।

Candidate must write first his / her Roll No. on the question paper compulsorily.

- (2) सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।

**All** the questions are compulsory.

- (3) प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें।

Write the answer to each question in the given answer-book only.

- (4) जिन प्रश्नों में आन्तरिक खण्ड हैं, उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें।

For questions having more than one part, the answers to those parts are to be written together in continuity.

- (5) प्रश्न-पत्र के हिन्दी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि/अंतर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही मानें।

If there is any error / difference / contradiction in Hindi & English versions of the question paper, the question of Hindi version should be treated valid.

| (6) | खण्ड | प्रश्न संख्या | अंक प्रत्येक प्रश्न | उत्तर की शब्द सीमा |
|-----|------|---------------|---------------------|--------------------|
|     | अ    | 1-10          | 1                   | 20 शब्द            |
|     | ब    | 11-20         | 2                   | 50 शब्द            |
|     | स    | 21-30         | 5                   | 100-150 शब्द       |

| Section | Q. Nos. | Marks per question | Words limit of answer |
|---------|---------|--------------------|-----------------------|
| A       | 1-10    | 1                  | 20 words              |
| B       | 11-20   | 2                  | 50 words              |
| C       | 21-30   | 5                  | 100-150 words         |

- (7) प्रश्न क्रमांक 21 से 30 तक में आंतरिक विकल्प हैं।

There are internal choices for Question Nos. 21 to 30.

## खण्ड – अ

**SECTION – A**

निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिभाषित कीजिए : (20 शब्दों में)

Define each of following in 20 words :

1. संचीयमान कर्म

Sanchiyman Karma

2. कारणता

Causation

3. सुशिक्षित चार्वाक

Sushikshit Charvak

4. योग

Yoga

5. त्रिपिटक

Tripitak

6. जरा-मरण

Jara Maran

7. समाधि

Samadhi

8. आत्मा (स्वामी विवेकानन्द)  
Soul (Swami Vivekananda)
9. बुद्धिवाद  
Rationalism
10. तेह (ताओ धर्म)  
Teh (Tao religion)

**खण्ड – ब**

(शब्द सीमा = 50)

**SECTION – B**

(Word limit = 50)

11. भारतीय दर्शन को परिभाषित कीजिए।  
Define Indian Philosophy.
12. ज्ञान–योग की अवधारणा का विवेचन कीजिए।  
Discuss the doctrine of ‘Gyan Yoga’
13. ‘अनेकान्तवाद’ से आप क्या समझते हैं ? समझाइये।  
What do you mean by ‘Anekantvada’ ? Explain.
14. प्राणायाम एवं प्रत्याहार में क्या अन्तर है ? समझाइये।  
What is the difference between Pranayam and Pratyahar ? Explain.
15. निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म के बीच क्या भिन्नता है ? समझाइये।  
What is the difference between Nirgun Brahma and Sagun Brahma ? Explain.

**SS-85-Philosophy (Supp.)**

16. ज्ञानमीमांसा से आप क्या समझते हैं ? विवेचन करें ।

What do you understand by Epistemology ? Discuss.

17. सर्वेश्वरवाद का सिद्धान्त किसे कहते हैं ? समझाइये ।

What is the theory of Pantheism ? Explain.

18. देकार्ट की संदेह-विधि क्या है ? समझाइये ।

Discuss method of doubt in context of Descartes. Explain.

19. बौद्ध धर्म के अनात्मवाद सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।

Explain the Doctrine to Momentariness of No-self of Buddhism.

20. अशुभ के विभिन्न प्रकारों को समझाइये ।

Explain different kinds of Evil.

**खण्ड – स**

(शब्द सीमा = 100-150)

**SECTION – C**

(Word limit = 100-150)

21. भारतीय दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों का वर्गीकरण आप किस प्रकार करेंगे ?

**अथवा**

चार्वाक दर्शन के जड़वाद (भौतिकवाद) सिद्धान्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

How will you classify the different schools of Indian Philosophy ?

**OR**

Write short note on “Doctrine of Materialism” according to Charvak Philosophy.

22. उपनिषदों के सन्दर्भ में ‘ब्रह्म की अवधारणा’ की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

### अथवा

‘भक्तियोग के सिद्धान्त’ पर भगवद्गीता के विचारों की विवेचना कीजिए।

Explain briefly the “Concept of Brahma” in context of Upanishadas.

### OR

Describe Bhagwatgita’s views on theory of “Bhakti Yoga”.

23. बौद्ध दर्शन में प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।

### अथवा

जैन-दर्शन में त्रिरत्नों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

Discuss the ‘Theory of Pratityasamutpad’ in Buddhism.

### OR

Explain Ratnatraya in Jain Philosophy in detail.

24. स्वामी विवेकानन्द के ‘व्यावहारिक वेदान्त की अवधारणा’ को स्पष्ट करें।

### अथवा

योग दर्शन के अनुसार ‘ध्यान, धारणा एवं समाधि के प्रत्यय’ की विस्तृत विवेचना कीजिए।

Explain the ‘Concept of Practical Vedant’ in context of Swami Vivekanand.

### OR

Describe in detail the concept of Dhyan, Dharna and Samadhi according to Yoga Philosophy.

**SS-85-Philosophy (Supp.)**

25. वर्तमान जीवन में 'दर्शनशास्त्र की महत्ता' पर चर्चा कीजिए।

**अथवा**

द्वन्द्वात्मक पद्धति के चार चरण विस्तार से बताइये। (प्लेटो)

Discuss the importance of philosophy in modern life.

**OR**

Write in detail four steps of dialectical method. (Plato)

26. इहलौकिकवाद (धर्मनिरपेक्षवाद) किसे कहते हैं? हार्वे कॉक्स द्वारा दी गई इसकी मुख्य विशेषताएँ बताइये।

**अथवा**

रिलिजन (पंथ) के अर्थ एवं स्वरूप की विवेचना कीजिए।

What do you understand by Secularism? Explain its main features given by Harvey Cocks.

**OR**

Discuss the meaning and nature of religion.

27. संवर, निर्जरा एवं मोक्ष सम्बन्धी जैन सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

**अथवा**

बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान सम्प्रदायों के बीच मूल भेदों की व्याख्या कीजिए।

Explain the Jain principles of Sanvara, Nirjara and Moksha in detail.

**OR**

Explain main points of difference between Hinyana and Mahayana schools of Buddhism.

28. ईसाई धर्म के सम्प्रदायों की विस्तृत विवेचना कीजिए।

**अथवा**

यहूदी धर्म के नैतिक विचारों पर चर्चा कीजिए।

Describe in detail the schools of Christianity.

**OR**

Discuss the moral thoughts of Judaism.

29. पारसी धर्म के ‘नीति विषयक विचारों’ की व्याख्या कीजिए।

**अथवा**

गुरु नानक देव के प्रमुख उपदेशों को समझाइये।

Explain the ‘Ethics’ of Persian religion.

**OR**

Explain the central teaching of Gurunanak Dev.

30. सनातन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए बौद्ध दर्शन में प्रस्तावित ‘आषांगिक मार्ग’ की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

**अथवा**

‘सर्व धर्म समभाव’ सिद्धान्त को समझाइये।

Explain briefly the eight fold path recommended by Buddhism for the attainment of Nirvan according to Sanatan Dharma.

**OR**

Discuss the concept of ‘Sarva Dharma Sambhav’.

---